



Date: 08/09/2022

The Head- Listing Compliance
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
FortMumbai- 400001

The Head- Listing Compliance
**National Stock Exchange of
India Ltd.**
Exchange Plaza,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex
Mumbai - 400 051

The Manager
**The Calcutta Stock
Exchange Ltd.**
7, Lyons Range,
Murgighata, BBD Bagh,
Kolkata, West Bengal-
700001

Security Code: 511611

Stock Code: DCMFINSERV

Sub: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015-Newspaper Publication

Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 please find attached herewith Newspaper Advertisement w.r.t. the notice of AGM to be held on 30th September, 2022, published in leading English Newspaper (Financial Express) and in Regional Language (Hindi) Newspaper (Jansatta Hindi Edition).

Kindly take the above information on your records.

Yours Faithfully,

For DCM Financial Services Limited

Digitally signed
KAUSHAL by KAUSHAL
KASHYAP
Date: 2022.09.08
13:44:57 +05'30'

Kaushal Kashyap
DIN: 07683753
Director

Place: New Delhi

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN:L65921DL1991PLC043087

Regd. Office: D 7/3, Okhla Industrial Area-II, New Delhi-110020

Tel-011-26387750

email ID: info@dfsionline.in

Website: www.dfsionline.in

NUPUR RECYCLERS LIMITED

Formerly known as NUPUR RECYCLERS PRIVATE LIMITED
 Regd. Office : Plot No. 5, KH 12/8, KH-12/9, KH-12, Arjun Gali,
 New Mandoli Industrial Area, Delhi - 110093
 Corporate Office : Plot No. 03, Functional Industrial Estate, Patparganj, Delhi-110092
 CIN: L37100DL2019PLC344788, Website: www.nupurrecyclers.com
 Email: compliance@nupurrecyclers.com, Tel: +91-8882704751

NOTICE OF 04th ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING

Notice is hereby given that the 04th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of NUPUR RECYCLERS LIMITED ("the Company") will be held on **Tuesday, September 27, 2022 at 03:00 IST** through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM.

The Company has sent the Notice of AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 on September 05, 2022 through electronic mode to the Members, whose e-mail addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Depository Participant(s) as on August 31, 2022, in compliance with the General Circular numbers 02/2022, 02/2021, 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated May 5, 2022, January 13, 2021, May 5, 2020, April 13, 2020 and April 8, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and circular numbers SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/2022/62, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/2021/11 and SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/2020/79 dated May 13, 2022, January 15, 2021 and May 12, 2020, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "Applicable Circulars") and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

The Notice and the Annual Report for the financial year 2021-22 are also available on the Company's website www.nupurrecyclers.com, on the website of the Stock Exchange, i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. Members seeking the hard copies of such AGM notice and Annual Report may write to us at compliance@nupurrecyclers.com.

The Company has engaged the services of CDSL as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-Voting facility.

As per the provisions of Section 103 of the Companies Act, 2013 ("Act") shareholders attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum. **Facility for appointment of proxy will not be available for the AGM.**

Remote e-Voting and e-Voting during the AGM
 In compliance with the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, Members will be provided with the facility to cast their votes through e-Voting system in the Notice of AGM using electronic voting system, i.e., through remote e-Voting provided by CDSL prior to the meeting and during the AGM.

The remote e-Voting facility will commence on: **Saturday, September 24, 2022, at 9.00 a.m. IST**
 The remote e-Voting facility will end on: **Monday, September 26, 2022, at 5.00 p.m. IST.**
 During this period the Members can select the **EVSN22092069** to cast their vote through remote e-Voting. The e-Voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e., voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on **September 26, 2022.**

Facility for voting electronically shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is casted, the member shall not be allowed to change it subsequently.

A person, whose name is registered in the Register of Members as on the cut-off date, that is, Tuesday, September 20, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before or during the AGM. The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on **September 20, 2022.** Any person, who becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date, or any Member who has forgotten the User ID and Password, may obtain/ generate/ retrieve the User ID and Password from CDSL as per the detailed procedure provided in the Notice of AGM.

Joining the AGM through VC/OAVM:
 Members will be able to attend the AGM through VC/OAVM by login at CDSL e-voting system and also cast vote during the AGM in case they have not voted during remote e-Voting period. The information about login credentials and steps to be followed for attending the AGM through VC/OAVM and casting vote through remote e-Voting are provided in the Notice of AGM.

For detailed instructions, please refer to the notice of AGM available on the website of the Company. Also this is to inform that all the members are holding shares in dematerialized form and for updating their e-mail address with the Company, members may intimate the same to the Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts.

Members who have acquired shares of the Company after the dispatch of this Notice and holding shares as on the cut-off date / member who has forgotten the User ID and Password, may approach CDSL at helpdesk.evoting@cdsindia.com, for issuance of the User ID and Password for exercising their right to vote by electronic means. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote. Members may also write at compliance@nupurrecyclers.com for the purpose of getting the soft copies of the Notice of AGM and Annual Report.

In case of any queries for voting through electronic means, you may refer the 'Frequently Asked Questions (FAQs)' for members and e-Voting User Manual available at the 'Downloads' section of <https://www.evotingindia.com>. Members are requested to note the following contact details for addressing queries/grievances, if any, related to e-Voting/AGM:
Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL),
 Central Depository Services (India) Limited,
 A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Matialli Mill
 Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013
 e-mail : helpdesk.evoting@cdsindia.com, toll free no: 1800 225 5333

By Order of the Board of Directors
 For Nupur Recyclers Limited
 Sd/-
 Shilpa Verma
 Company Secretary
 Place : New Delhi
 Date : September 06, 2022

KRA Leasing Limited

CIN:L65993DL1990PLC039637, Ph.: + 0124-4746817
 Email: kraleasing1990@gmail.com, Website: www.kraleasing.com
 Regd. Office: C-20, SMA Co-operative Estate, G T Karnal, Road Delhi - 110033
 Corp. Off. Plot No.3, Sector-11, IMT Manesar, Gurugram-120505, Haryana

NOTICE

Notice is hereby given that 33rd Annual General Meeting (the AGM) of the Company will be convened on Friday, September 30, 2022, at 11:00 A.M. through video conferencing (VC)/other audio visual means (OAVM), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made there-under and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to transact the Ordinary and Special Business, set out in the Notice of the 33rd AGM without the physical presence of the members at a common venue.

In terms of provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 24th September 2022 to 30th September 2022 (Both days inclusive) for the purpose of AGM.

The AGM Notice & Annual Report has been sent through electronic mode to the members whose email id's are available in the Company's records on 03rd September 2022.

The Notice as well as Annual Report is also available on and can be downloaded from the Company's website www.kraleasing.com as well from the website of Metropolitan Stock Exchange <https://www.msxai.in>.

All the members are informed that:

- The Ordinary and Special Business(s) as set out in the notice of the 33rd AGM will be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting shall commence on Tuesday 27th September 2022 (09:00am) IST.
- The remote e-voting shall end on Thursday, 29th September 2022 (05:00pm) IST.
- Please note that e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- Any person who becomes member of the company after dissemination of the notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the User-ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdsindia.com or kraleasing1990@gmail.com. However, if the person is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user ID and Password can be used for casting vote.

Members may note that:

- the remote e-voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently.
- the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the 33rd AGM through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again through the e-Voting system during the AGM.
- the members participating in the AGM and who had not cast their vote through remote e-voting system shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the AGM.

(iv) A person whose name appears in the register of members/beneficial owners as on cut-off date i.e. 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting.

Process for those shareholders whose email IDs are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investors@skylinert.com
- In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to investors@skylinert.com

g. Please visit <http://www.evotingindia.com> to cast your vote through e-voting system. The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the AGM. The details will also be available on the website of the Company at www.kraleasing.com and on the website of CDSL at <http://www.evotingindia.com>. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM ("Zoom App Link") and Members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM through Zoom Link. The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company / Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM through VC / OAVM.

As there is no final dividend, disclosure regarding submission of dividend mandate is not required. Member may request to the Company for a duplicate Annual Report, if so required.

Any query or grievances in relation to e-voting at AGM including remote e-voting may be addressed to the Name- Ms. Prashi Saxena, Designation: Company Secretary at kraleasing1990@gmail.com.

For KRA Leasing Limited
 Sd/-
 Prashi Saxena
 Company Secretary
 Place: Gurugram
 Date: 05.09.2022
 Membership Number: A66481

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED

CIN : L65921DL1991PLC043087
 Regd. Office: D 7/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110020
 Email: info@dfsionline.in, Website: www.dfsionline.in, Tel.: 011-26387750

31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING

Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of members of DCM Financial Services Limited ("the Company") is scheduled to be held through video conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) on **Friday, 30th September, 2022 at 01:00 P.M.** in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and circulars issued thereunder, to transact the business items as set out in the notice of AGM which shall inter-alia contain the instructions for joining AGM through VC.

Manner of registering/ updating e-mail addresses:

Members holding shares in Demat form and who are yet to register/update their email IDs are requested to approach NSDL/CDSL ("Depository Participant") in case of dematerialized shares. Members holding shares in physical form are requested to send their duly signed request letter to MCS Share Transfer Agent Ltd, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020, or email at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com or our RTA along with self-attested copies of PAN Card and address proof to register their email IDs.

Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in notice of AGM. The remote e-voting shall commence from 27th September, 2022 (09:00 A.M.) to 29th September, 2022 (05:00 P.M.). The cut-off date for the purpose of e-voting shall be 23rd September, 2022. The manner of casting vote through e-voting system including those by physical shareholders or by shareholders who have not registered their email IDs or person who has acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice shall be provided in notice of AGM. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforementioned date and time.

The company shall provide for voting by members present at the meeting through e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the general meeting.

Copy of the AGM notice along with Annual Report for financial year 2021-22 and login details for such voting, will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/ DP in due course and will be made available on the website of the Company i.e. at <https://dfsionline.in/investor.html> and on the website of stock exchanges viz. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange Limited at www.nseindia.com

The Shareholders may contact Ms. Somali Tiwari, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the address of registered office of the Company or by writing at info@dfsionline.in

For DCM Financial Services Limited
 Sd/-
 Nidhi Deveshwar
 Whole-Time Director
 Date: 06/09/2022
 Place: New Delhi
 DIN: 09505480

MFL INDIA LIMITED

CIN: L63040DL1981PLC012730
 Regd. Office: 94/4, UG-F, UG-9, Village Patparganj, Delhi 110091
 Website: www.mflindia.info, Contact No +91-11-32076767

NOTICE

Notice is hereby given that 39th Annual General Meeting of the members of MFL India Limited will be held on Friday, 30th September 2022 at 09:00 A.M. at G-1, Ground Floor, Well King Towers, 94/4, Main Market, Patparganj, Mayapuri, Phase-I, Delhi - 110091 to transact the following businesses. Notice of the Meeting along with the explanatory statement and Annual Report for the Financial Year ended 31st March 2022, and Remote e-Voting details has been sent in electronic mode to all the members whose e-mail id's registered with RTA and depository participants (DP) and Physical copies of the same has been sent to all members individually at their registered address in the prescribed mode. The Annual return including notice of AGM of the company is available at the website of the company and also available for the inspection at registered address of the company during office hours on working days, except Sunday.

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013, read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, and Regulation 44 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Shareholders with facility of "remote e-voting" (e-voting from a place other than venue of AGM), through e-voting services provided by Central Depository Services Limited (CDSL), to enable them to cast their votes at 39th AGM of the Company. The details as per requirement of the rules are given hereunder:

- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and SEBI (LODR) Regulations, 2015, the register of members and Transfer Books of Company will remain closed from 24th September 2022 to 30th September 2022 (Both days inclusive).
- The remote e-voting period will commence from September 27, 2022 (9:00 A.M.) and ends on September 29, 2022 (5:00 P.M.). The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter on 29th September 2022. During this period the eligible shareholders of the company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically.
- The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic (Remote e-voting is Friday, 23rd September 2022.
- Those Persons who have acquired shares and have become members of the company after dispatch of Notice of the AGM by the Company and whose names appear in the register of members or Register of Beneficial holders as on Cut-off date i.e. September 23, 2022 can view of the Notice 39th AGM on the Company's Website at www.mflindia.in and also on website of CDSL at www.evotingindia.com.
- The Company has appointed Mr. Amit Agrawal, Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the e-voting process.
- The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- The members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through Ballot Paper.
- Members may contact Mr. Anil Thakur, Managing Director at 94/4, UG-F, Village Patparganj, Delhi 110091 for any grievance related to electronic voting and write to her on company's mail id at mflindia@1@gmail.com and members may contact Mr. Bharat of Link Intime India Pvt Limited, our Registrar & Share transfer agent for any grievance related to e-voting by writing to them at deokumar.singh@linkintime.co.in and calling on them at 011-41410592, 93.94 between 10:00 A.M. to 6:00 P.M.
- A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on poll instead of himself / herself and Proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing Proxy should be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

By order of Board of Directors
 For MFL India Limited
 Sd/-
 Mr. Anil Thakur
 Managing Director
 Date: 05.09.2022
 Place: Delhi
 DIN: 01168540

ATLANTIC COMMERCIAL COMPANY LIMITED

Regd. Office : Unit No. 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006
 CIN: L15909DL1985PLC020372 Website: www.atlanticcommercial.com
 E-mail id: info@atlanticcc@gmail.com, Phone No. : 011 - 41539140

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Atlantic Commercial Company Limited ("the Company") is scheduled to be held on Thursday, September 29, 2022 at 2.30 P.M. at Unit No. 2053, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006, to transact the business as stated in the Notice thereof.

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of aforesaid AGM.

Physical copies of Annual Report for financial year 2021-22 including Notice of 37th AGM of the Company have been sent to all members of the Company at their registered address in the permitted mode and soft copies of the same have also been sent in electronic mode to members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s).

As per Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL), on all resolutions proposed to be considered at the aforesaid AGM.

Further, the facility for voting through polling paper shall be available at the AGM. The members who have already cast their vote through remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote at the AGM.

Ms. Pragnya Parinita Pradhan, Company Secretary in whole-time practice, proprietor of Ms. Pragnya Pradhan & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and the voting at AGM in a fair and transparent manner.

All the members are hereby informed that:

- The Ordinary Business and the Special Businesses as set out in the Notice of 37th AGM of the Company may be transacted through voting by electronic means;
- The remote e-voting period commences on Monday, September 26, 2022 (9:00 A.M. IST);
- The remote e-voting period ends on Wednesday, September 28, 2022 (5:00 P.M. IST);
- Cut-off date: Thursday, September 22, 2022;
- Any person, who acquires and/or allotted shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date i.e. September 22, 2022, may obtain the User ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact NSDL at toll free number 1800-222-990. However, if a member is already registered with NSDL for remote e-voting, he/she can use his/her existing User ID and password for casting his/her vote;
- The members may note that:
 - remote e-voting shall not be allowed beyond Wednesday, September 28, 2022 (5:00 P.M. IST);
 - the facility for voting through polling papers shall be made available at the AGM of the Company and members attending the AGM who have not already casted their vote by remote e-voting shall be able to vote at the AGM;
 - a member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the AGM; and
 - a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on cut-off date i.e. September 22, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM;

(vii) The Notice of 37th AGM of the Company is available on the Company's website www.atlanticcommercial.com and NSDL's website www.evotingindia.com; and

(viii) In case of any queries, members may refer to the 'Frequently Asked Questions (FAQs)' for members' and e-voting User Manual for members' available at the Downloads Section of www.evotingindia.com or contact Mr. Ajay Kumar Dalal, Sr. Manager / Mr. Amarjit, Sr. Manager, MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020, Phone No. 011-41406149, email: admin@mcsregistrars.com or contact NSDL at toll free number 1800-222-990, who will address the grievances connected with the electronic voting.

The information contained in this notice shall also be available on the website of the Company (www.atlanticcommercial.com) and also on the website of Metropolitan Stock Exchange of India Limited (www.msxai.in).

For Atlantic Commercial Company Limited
 Sd/-
 Prakhar Vishnoi
 Company Secretary
 Place: Delhi
 Date: 05.09.2022

pnb punjab national bank ... the name you can BANK upon!

Circle Sastra Centre:- Zila Vikas Bhawan, Rohtak, E- mail: cs8307@pnb.co.in, M- 8130554343

E-AUCTION NOTICE
PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES Date: 05.09.2022

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with provision to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Symbolic/Physical possession** of which has been taken by the Authorised Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" Basis on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

Name of the Branch Name of the Account Name & addresses of the Borrower/Guarantors Account		Description of the Immovable Properties Mortgaged/ Owner's Name (mortgagers of property(ies))	A) Dt. Of Demand Notice vis 13(2) of SARFAESI Act 2002 B) Outstanding Amount as per Demand Notice C) Possession Date vis 13(4) of SARFAESI Act 2002 D) Nature of Possession Symbolic/Physical/Constructive	A) Reserve Price B) EMD C) Bid Increase Amount	Date/ Time of E-Auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
PNB, Branch office - Lal Nath Hindu College, Rohtak Mobile: 8814000335 E-Mail: bo079510@pnb.co.in M/s Ram Kumar Govt. Contractor through its proprietor Ram Kumar, 1387/19, New Chinot Colony Rohtak -124001, Sh. Ram Kumar, Address:- Commercial Plot at Plot No. 11 and 11A min, part Shri Nagar Colony Rohtak -124001 3 Sh. Ram Kumar, Address:- Plot No. 469, New Chinot Colony, Rohtak -124001, Sh. Paramejit Mor S/o Sh. Sh. Rajender Singh - Guarantor , Address - Commercial Plot at Baroda Road, near FCI Godown and near Ram Dharam Kanta, ward no.1, Gohana	1. A Property/House no. Plot no.-1383/19 constructed of plot no.-15 Min, at present is 1387/19 measuring 58.75 Sq. Yards forming part of Khasra No.-15026/2827/2 and 15028/2828, Mauja rohtak Situated at Shri Nagar Colony, Rohtak within MC Limits Rohtak registered in name of Mr. Ram Kumar s/o Bansil Singh vide deed No 9039 dated 09/01/2009 registered with sub registrar Rohtak and same is bounded as under:- East - 13 feet 10 inch- Wall of Medical College, Self Wall, West - 13 feet 4 inch-Rasta 15 Feet Wide, North - 39 feet, -Plot No.-15 Min, Self Wall, South:- 39 feet, -House of Malhotra, Self Wall	A) 20/05/2021 B) Rs 1,97,95,730.49 + interest and charges C) 25/07/2022 D) Symbolic Possession	A) Rs. 29.39 Lakh B) Rs. 2.94 Lakh C) Rs. 0.10 Lakh	12.10.2022 from 11.00 a.m. to 4.00 p.m.	None known	
2. A Property/Plot no.-11 and 11 A Min(Plot) measuring 142 Sq. Yards, situated at Shri Nagar Colony No.-2, Near Medical College, Rohtak within MC Limits Rohtak registered in name of Sh. Mr. Ram Kumar s/o Bansil Lal Vide Sale deed No-351 Dated 16.04.2012 registered with joint sub registrar Rohtak and same is bounded as under:- East - 32 feet, -Plot/ Smt. Kamla Devi etc., West - 32 feet, - Gali/ Road 15 Feet Wide, North - 40 feet, - Gali/ Road 15 Feet Wide, South:- 40 feet, -Plot other's	A) 20/05/2021 B) Rs 1,97,95,730.49 + interest and charges C) 25/07/2022 D) Symbolic Possession	A) Rs. 48.28 Lakh B) Rs. 4.28 Lakh C) Rs. 0.10 Lakh	12.10.2022 from 11.00 a.m. to 4.00 p.m.	None known		
3. A Property/Plot Measuring 41.66 Sq. Yards Southern Part of Plot No.-469 min and 468 Min (Part of Both) Situated at Chinoyt Colony, Rohtak Within M.C Limit Rohtak registered in the name of Mr. Ram Kumar s/o Bansil Lal Vide sale Deed No.-2972 Dated 02/06/2010 registered with joint sub registrar Rohtak and same is bounded as under:- East - 25 feet, -Remaining property of Sehgal, West - 25 feet, Gali/ Rasta Aam, North - 15 feet Common Passage / Rasta 10 feet Wide, South - 15 feet House of Nand Lal Girhar.	A) 20/05/2021 B) Rs 1,97,95,730.49 + interest and charges C) 25/07/2022 D) Symbolic Possession	A) Rs. 17.00 Lakh B) Rs. 1.70 Lakh C				

TIKA RAM EDUCATION SOCIETY (REGD.)
 Applications are invited from eligible candidates for the following Haryana Govt. aided vacant posts of Assistant Professors on regular basis in Tika Ram College of Education Sonapat (approved by NCTE) run by the society.
1. Assistant Professor in Education-01 (General)
2. Assistant Professor in Education (Teaching of Physical Science)-01 (General)
3. Assistant Professor in Education (Teaching of Economics)-01 (General)
4. Assistant Professor in Education (Teaching of Mathematics)-01 (General)
5. Assistant Professor in Education (Teaching of English)-01 (General)
6. Assistant Professor in Education (Teaching of Hindi)-01 (General)
 Age, Qualifications, norms, selection criteria and pay scale as per Haryana Govt. U.G.C and Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology (DCRUST), Murthal, Sonapat. Eligible persons may apply to General Secretary, Tika Ram Education Society (Regd.) Sonapat sent to Tika Ram Model School Sonapat, on plain paper mentioning all details of the candidate along with attested copies of all certificates and a demand draft of Rs. 500/- for General and Rs. 250/- for B.C (A) and S.C candidates respectively in favour of **Principal, Tika Ram College of Education, Sonapat** within 21 days of publication of this advertisement i.e. upto 26.09.2022.
 One copy of the application along with attested testimonials be sent to Dean (Colleges), Deen Bandhu Chhotu Ram University of Science and Technology (DCRUST), Murthal, Sonapat. No consideration for postal delay.
Surinder Singh Dahiya, President
Tika Ram Education Society Sonapat

ऋण वसुली अधिकाऱ्यायाधकरण-III, दिल्ली के समद
वसुली, जीवन नगर लिमिटेड, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
 एक नया वित्तीय संस्था का रूप ऋण वसुली अधिकाऱ्यायाधकरण, 1993 को वारा 19(4) के तहत पंजीकृत ऋण वसुली अधिकाऱ्यायाधकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना **डॉ. ए. सं. 803/2021**
बैंक ऑफ बड़ोदा विरुद्ध **मेसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज एवं अन्य प्रतिवादीगण**
 सी-1 मेसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज अपने प्रोप्राइटर के माध्यम से निवासी गेट नंबर 3, बी.डी. पार्क रोड, बरसात रोड, नयापूर, हरियाणा - 132103
 सी-2 श्री विद्यागुरु जैन पुत्र शील चंद जैन पते नंबर 901, लोक सौरी, किंसावरी अपार्टमेंट टोडीआई सिटी, कुडली, सोनीपत, हरियाणा, 131028
 सी-3 श्रीमती सरिता जैन पत्नी शील चंद जैन पते नंबर 901, लोक सौरी, किंसावरी अपार्टमेंट टोडीआई सिटी, कुडली, सोनीपत, हरियाणा, 131028
 जबकि उपरोक्त नामक आवेदक ने आपके विरुद्ध एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए, विज्ञापन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक **26-10-2022** को पूर्ण, 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के सम्मेलन उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
 ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के सम्मेलन उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
 वैश्विक महामारी की वर्तमान स्थिति के कारण, सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु -
 (i) सभी अधिकृत/निवादी **Cisco Webex** ऐप्लीकेशन / सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे ;
 (ii) रजिस्ट्रार/वसुली अधिकारी-1/ तथा वसुली अधिकारी-11 द्वारा मामलों की सुनवाई की अगली तिथि हेतु **Meeting ID** तथा **Password** अगली तारीख से एक दिन पहले डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल नामतः **drt.gov.in** पर पर सार्वजनिक सूचना शीक के अंतर्गत उपलब्ध होगा।
 (iii) किन्हीं कार्यालयों की स्थिति में, अधिकृत/निवादी संबंधित पदाधिकारी से फोन नंबर 23748469 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
 मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 17 अगस्त, 2022 को दिया गया।
 न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा

DCM FINANCIAL SERVICES LIMITED
CIN : L65921DL1991PLC043087
Regd. Office: D 7/3, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi 110020
Email: info@dflsonline.in, Website: www.dflsonline.in, Tel: 011-26387750
31ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFRENCING
 Notice is hereby given that 31st Annual General Meeting (AGM) of members of **DCM Financial Services Limited** ("The Company") is scheduled to be held through video conferencing (VC) or **Other Audio Visual Means (OAVM)** on **Friday, 30th September, 2022 at 01:00 P.M.** in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and circulars issued thereunder, to transact the business items as set out in the notice of AGM which shall inter-alia contain the instructions for joining AGM through VC.
Manner of registering/ updating e-mail addresses:
 Members holding shares in Demat form and who are yet to register/update their email IDs are requested to approach NSDL/CDSL (Depository Participant) in case of dematerialized shares. Members holding shares in physical form are requested to send their duly signed request letter to MCS Share Transfer Agent Ltd, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 or email at **helpdesk@delhi@mcstransfers.com** to our RTA along with self-attested copies of PAN Card and address proof to register their email IDs.
 Members will have an opportunity to cast their vote remotely on the business items as set out in notice of AGM. The remote e-voting shall commence from 27th September, 2022 (09:00 A.M.) to 29th September, 2022 (05:00 P.M.). The cut-off date for the purpose of E-voting shall be 23rd September, 2022. The manner of casting vote through e-voting system including those by physical shareholders or by shareholders who have not registered their email ids or person who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice shall be provided in notice of AGM. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforementioned date and time.
 The company shall provide for voting by members present at the meeting through e-voting. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the general meeting.
 Copy of the AGM notice along with Annual Report for financial year 2021-22 and login details for such voting, will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/ DP in due course and will be made available on the website of the Company i.e. at **https://dflsonline.in/investor.html** and on the website of stock exchanges viz. BSE Limited at **www.bseindia.com** and National Stock Exchange Limited at **www.nseindia.com**
 The Shareholders may contact Ms. Somali Tiwari, Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the address of registered office of the Company or by writing at **info@dflsonline.in**
For DCM Financial Services Limited
 Sd/-
Nidhi Deveshwar
 Whole-Time Director
DIN: 09505480
Date: 06/09/2022
Place: New Delhi

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
युगवसा, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)
19वीं वार्षिक आम बैठक के लिए शेयरधारकों को सूचना
 1. एट्टाद्वारा सूचित किया जाता है कि एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकाशों के लेन-देन हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों की 19वीं वार्षिक आम बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दूरस्थ-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से **शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को 11:30 बजे पूर्ण**, (भा.मा.स.) पर आयोजित की जायेगी जिसे जल्द से संकलित किया जा रहा है। जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ पठित सामान्य परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, सामान्य परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 तथा सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 के साथ पठित, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 तथा साथ ही कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए परिपत्र) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के परिपत्र के साथ पठित परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (LORD) विनियम], के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों की 19वीं एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दूरस्थ-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी।
 2. उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 सहित एजीएम की सूचना कम्पनी के केवल उन सदस्यों के पास भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(स) के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट **www.rvnl.org**, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः **www.bseindia.com** तथा **www.nseindia.com**, एनएसडीएल (ई-वोटिंग/ रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदाता एजेंसी) की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** तथा कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए), मेसर्स अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड की वेबसाइट **www.alankit.com** पर भी उपलब्ध है।
3. ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट करने की रीति
 (क) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से और भौतिक रूप से शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अन्वरकली कॉलेज रोड, इंडोरा नगर एक्सप्रेसटन, नई दिल्ली-110055 पर या मेल **vi@reders@alankit.com** द्वारा पंजीकृत करें।
 (ख) शेयरधारक जिन्होंने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे नीचे दिए गए तरीके से पूनर् आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
 (i) यदि शेयर भौतिक रूप में धारित किए गए हैं तो कृपया ई-मेल **vi@reders@alankit.com** द्वारा भौतिक लेन-देन, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति) प्रदान करें।
 (ii) यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी-क्लाइंटआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी-क्लाइंटआईडी) या 16 अंकों का लामाशी आईडी, नाम, क्लाइंट मास्टर या संशोधित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) **vi@reders@alankit.com** पर प्रदान करें। यदि आप डीमैट विधि में प्रतिभूतियों को रखने वाले एक व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो कृपया एजीएम की सूचना में बताई गई लॉगिन विधि देखें।
 (ग) वैकल्पिक रूप से शेयरधारक / सदस्य ये दस्तावेज **e-voting@nsdl.co.in** पर उपलब्ध कराकर ई-वोटिंग के लिए पूनर् आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अनुरोध भेज सकते हैं।
4. रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग करने की रीति
 (क) सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकाश पर अपना मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
 (ख) डीमैटरीयोजनाएक प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं उनके द्वारा रिमोट डंग से मतदान ("रिमोट ई-वोटिंग") की रीति एजीएम की सूचना में दी गयी है। ये विवरण कम्पनी की वेबसाइट **www.rvnl.org** तथा एनएसडीएल की वेबसाइट **www.evoting.nsdl.com** पर भी उपलब्ध कराई जायेगी।
 (ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जायेगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग से मतदान नहीं किया है वे एजीएम में मतदान कर सकते हैं।
 (घ) ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जिन सदस्यों को ई-मेल नहीं प्राप्त हुआ अथवा जिनके ई-मेल कम्पनी/अलंकित एसाइनमेंट्स/ डिपॉजिटरी भागीदार के साथ पंजीकृत नहीं हैं वे एजीएम की सूचना के नोटिस में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करके लॉगिन विवरण सूचित कर सकते हैं।
5. लामाशा प्राप्त करने के लिए अधिदेश दर्ज कराना का तरीका :
 (क) लामाशा का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट किया है। लामाशा वॉरंट / डिमांड ड्राफ्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे जिन्होंने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है।
 (ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप से लामाशा के भुगतान के लिए, जिन सदस्यों ने पहले इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) सुविधा का विकल्प नहीं चुना है, उनसे ईसीएस में डेट फॉर्म भरने और ईसीएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए इसे सीधे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) को जमा करने का अनुरोध किया जाता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले व्यक्ति ईसीएस में डेट फॉर्म को अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (अलंकित) या आरटीए को भेज सकते हैं। शेयरधारक को भौतिक रूप में शेयर रखते हैं और जो ईसीएस सुविधा का विकल्प नहीं चुना चाहते हैं, वे अपने बैंक का नाम, शाखा का नाम और खाता संख्या अलंकित को ई-मेल कर सकते हैं ताकि वे लामाशा वॉरंट पर इन विवरणों को प्रिंट कर सकें।
6. सदस्य कृपया एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी नोट और विमोच रूप से ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कराने के निर्देश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान या एजीएम के दौरान मतदान की रीति और लामाशा सम्बन्धी सूचना ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
कृते रेल विकास निगम लिमिटेड
ह./- कल्पना दूबे
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 05.09.2022

ऋण वसुली अधिकाऱ्यायाधकरण-III (डीआरटी 2)
ला तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17ए, चंडीगढ़
(3रे एवं 4थे तल पर भी स्थान आवंटित)
 निमावली सं.: ओए/188/2018
 ऋण वसुली अधिकाऱ्यायाधकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत सम्मत् युगवसु बैंक ऑफ इंडिया नामक मे. सी.ए. लिमिटेड, द्वारा उसके प्रप्राइटर शीमली रेखा रानी, कानवेल - सॉफ्टवे. 03 पंचमल विनोद पोर अधिकाऱ्यायाधकरण द्वारा प्रेषित सूचना, हरियाणा-122001 तथा धी: निवासी: ग्राम घोडा, चौरम मण्डली, धौकन (120) गुरुग्राम, हरियाणा-122055
 नैसा के ओए/188/2018 दिनांक 23.8.2022 को माननीय पीठलिन अधिकाऱ्यायाधकरण के सम्मत् सूचीबद्ध किया गया था नैसा के माननीय अधिकाऱ्यायाधकरण न. 1047594/- के अधीन की वसुली के लिए स्वीकृत (ओर) में अधिनियम की धारा 19(4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम पर सम्मत् सूचीबद्ध सचयों का विवरण है। (दस्तावेजी आदि की प्रतियों के साथ अधिनियम संलग्न)
 अधिनियम की धारा 19 के उप-धारा (4) के अनुसार प्रतिक्रियाओं की निम्न विधि देना जाता है।
 i) सचय को सचिव के बीच दिनांक के भीतर यह अलग सचयों को पंजीकृत नहीं कर सकते हैं वरन् सचयों को पत्र।
 ii) वसुली अधिनियम के क्रम 3 ए के अंतर्गत अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सम्पत्तियों तथा परिष्कारणों के अधिनियम सम्पत्तियों या परिष्कारणों के विवरणों को दृष्टिगत करना
 iii) सम्पत्तियों के एटैचमेंट के लिए अधिनियम की सुनवाई तथा निपटारे के लक्ष्य हेतु की विधि में वसुली अधिनियम के क्रम 3 ए के अंतर्गत दृष्टिगत किया जाना पंजीकृत/अपडेट करने पर सम्पत्तियों अथवा प्रतिक्रिया परिष्कारणों का व्यवस्थापन या निपटारा करने से आपको वार्षिक किया जाता है।
 iv) आप अधिकाऱ्यायाधकरण को पूर्ण अनुमति के बिना व्यवस्थापन की सामान्य प्रक्रिया के अधिनियम ऐसी किसी भी परिष्कारणों द्वारा पर प्रतिक्रिया लिखित लिखित है एवं/अथवा मूल आवेदन के क्रम 3 ए के अंतर्गत निर्दिष्ट या दृष्टिगत किया गया परिष्कारणों या सम्पत्तियों का विवरण, पत्र या अन्य रूप से आप अधिनियम नहीं करेंगे।
 v) आप प्रतिक्रिया परिष्कारणों का व्यवस्थापन की सामान्य प्रक्रिया में अन्य परिष्कारणों तथा सम्पत्तियों अथवा प्रतिक्रिया परिष्कारणों की प्रतिक्रिया द्वारा उम्माहों को पूर्ण विवरण सचयों का वार्षिक देना तथा ऐसे परिष्कारणों पर प्रतिक्रिया लिखित करने वाले बैंक का विवरण स्थानीय में प्रेषित खाल में उक्त विवरण लिखित नाम करने के लिए उम्माहों हेतु आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप निर्दिष्ट सम्पत्तियों के तहत उम्माहों के एक प्रति अधिनियम के साथ प्रस्तुत करें तथा 01.03.2022 को 10.30 को पूर्ण। मे. सी.ए. लिमिटेड के सम्मत् अधिनियम, अन्यथा अधिनियम की सुनवाई तथा निर्देश अधिकाऱ्यायाधकरण में भी जायेगी।
 मेरे हस्त से तथा अधिकाऱ्यायाधकरण की मुहर संलग्न आदि दिनांक 30.08.2022 को दी गई।
रजिस्ट्रार
ऋण वसुली अधिकाऱ्यायाधकरण, चंडीगढ़

एकेजी एंजिम लिमिटेड
CIN: L00063DL2005PLC139045
पंजीकृत कार्यालय: एच.वी. टिन टावर, सातवीं मंजिल, मेक्स हास्पिटल बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
कॉर्पोरेट कार्यालय: सुनित नंबर 237, 02 वीं मंजिल, टॉवर-बी, स्याजेल, सेक्टर-47, सोहन रोड, गुरुग्राम-122118, हरियाणा
वेबसाइट: www.akg-global.com | ईमेल: info@akg-global.com, फोन: +91-124-4267873
 बाइबल क्लब (वॉर्स) / अन्य आध्यात्मिक/वैजुअल साधना (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 17वीं की वार्षिक आम बैठक, कटऑफ तिथि के संबंध में सूचना।
 एकेजी एंजिम लिमिटेड ("कंपनी") के शेयरधारकों को एट्टाद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 और 02/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021 और 05 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र") के रूप में संशोधित के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMDI/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 एवं SEBI/HOD/DRS/P/CIR/2022/0063 क्रमशः दिनांक 12 मई, 2020, 15 जनवरी, 2021 और 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से "सेबी संकलन" के रूप में संदर्भित) तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार और सेबी द्वारा जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों के अनुपालन में उक्त एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने के लिए 17वीं (सत्रहवीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को शाम 04.00 बजे किसी कौन स्थान पर शेयरधारकों की बिना भौतिक उपस्थिति के वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
 1. उपरोक्त परिपत्र के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट **www.akg-global.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट (**www.nseindia.com**) और नेशनल सिन्डिकेटेड डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") (**www.evotingindia.com**) पर भी उपलब्ध होगी।
 2. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन्होंने कंपनी/आरटीए या संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट / लॉगिन क्रेडेंशियल की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/आरटीए और कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें। वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट की कोई भी भौतिक प्रतियां किसी शेयरधारक को नहीं भेजी जाएगी।
 3. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने का तरीका
 कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए एनएसडीएल के साथ समझौता किया है ताकि शेयरधारकों को एजीएम में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव पर और साथ ही एजीएम में वीसी-ओएवीएम सुविधा के माध्यम से मीडवू और ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से एजीएम के दौरान अपना वोट डालने के इच्छुक शेयरधारकों के लिए मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से उनके ईमेल पते को ऊपर दिए गए तरीके से सफलतापूर्वक पंजीकृत करने के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। "रिमोट ई-वोटिंग" और "ई-वोटिंग" के माध्यम से वोट डालने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में विस्तार से प्रदान की जाएगी।
कृते एवं हिते
एकेजी एंजिम लिमिटेड
ह./-
महिमा गोयल
(व्यवस्थापक निदेशक)
स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 3 सितंबर, 2022

TATA ELXSI LTD
 Registered Address: ITPB Road, Whitefield, Bengaluru, Karnataka - 560048
NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has been lost and the holder(s) of the said securities/appliances has applied to the Company to issue duplicate certificate(s). Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation. Name(s) of holder(s): Deepak Khanna, Kind of Securities and face value 10/- Equity Shares, No. of Securities 100, Folio No. EX00001433, Distinctive Nos. 7897311-7897410 Date: 06.09.2022 Name(s) of the Claimant(s): Place: Delhi DEEPAK KHANNA
COURT NOTICE
 In the court of Sh. Indrajit Singh JMC-3, Jalandhar The Jalandhar Central Co Operative Bank Vs Neetu
 CNR NO: PBJL03-017543-2019
 Next date : 07-10-2022
 Publication Issued To: Neetu; U/P Subhash Chander R/o H/o 605 Karol Bagh Backside Lancers School Distt Jalandhar
 In/and above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 07-10-2022 at 10:00 am. For details logon to: <https://highcourtrchd.gov.in/> /?trs=district_notice&id=Jalandhar JMC-3, Jalandhar

पंजाब नैशनल बैंक
कब्जा धारण की सूचना
 अयोध्याशर्मा जो कि पंजाब नैशनल बैंक ने सफरसी एक्ट 2002 के अंतर्गत प्राथम अधिकारों के तहत धारा 13(2) के तहत सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान नोटिस की दिनांक सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था भुगतान करने में असमर्थ रहने के कारण ऋणी/मोटेगिजर तथा सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि अयोध्याशर्मा ने उपरोक्त एक्ट की धारा 13 (4) जिसे इंप्रोसेसमेंट नियम 8 के साथ पढ़ा जाये में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा दिनांक 27, 28 अप्रैल एवं 2 मई 2022 को प्राप्त कर लिया है ऋणी व मोटेगिजर को विशिष्ट रूप से तथा सामान्य रूप से सतर्क किया जाता है कि निम्न सम्पत्तियों का सीदा न करें तथा सम्पत्तियों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार/लेन-देन पंजाब नैशनल बैंक की सम्बन्धित शाखा की ऋण राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के आधारे होगा। जिन सम्पत्तियों पर कब्जा किया गया उनका विवरण इस प्रकार है

क्र. सं.	ऋणी खाते का नाम व पता गारुटर का नाम व पता शाखा का नाम	धारा 13 (2) के अंतर्गत कब्जा राशि एवं मांग सूचना दिनांक	गिरवी रखी अचल सम्पत्तियों का विवरण
1.	ऋणी/व्यवकर्ता : 1. श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता 2. श्रीमती गिरजा गुप्ता पत्नी श्री जुगल किशोर गुप्ता पौनपुरी, स्प्रिंगडेल कॉलेज, शाहमहौल	रु. 13,93,389.30/- + दिनांक 01.06.2022 से ब्याज एवं अन्य खर्च सूचना दिनांक 15.06.2022 एवं प्रतिकात्मक दिनांक 03.09.2022	आवासीय मकान के साम्यिक बन्धक क्षेत्रफल 76.08 वर्ग मी. श्री रोहित कुमार पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता एवं श्रीमती गिरजा गुप्ता पत्नी श्री जुगल किशोर गुप्ता के नाम स्थित मो. इन्द्रा नगर उदयपुर खास, बरोली बिल्डिंग विलेज के अनुसार बूक सं. 01 जिल्द सं. 7877, पेज नं. 105 से 150, क्रम सं. 5959, दिनांक 30.05.2015 को उप रजिस्ट्रार सदर से पंजीकृत चौहदर : पूरब - म.सं. 01 नरेश प्रसाद, पश्चिम - उमेश चन्द्र शर्मा का मकान, उत्तर - गली 12फिट चौड़ी बरहू अन्य व्यक्तिक का मकान, गली 12फिट चौड़ी बरहू अन्य व्यक्तिक का मकान.

नोट : किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित अंग्रेजी के विज्ञापन को वरीयता दी जायेगी
 दिनांक : 06.09.2022 स्थान : बरोली प्रधिकृत अधिकारी

ISHAN INTERNATIONAL LIMITED
(CIN: U74899DL1995PLC069144)
 Our Company was originally incorporated as Ishan International Private Limited on May 29, 1995 under the Companies Act, 1956 vide certificate of incorporation issued by the Registrar of Companies, New Delhi. Subsequently the name of the company was changed from "Ishan International Private Limited" to "Ishan International Limited" under the Companies Act, 2013 pursuant to a special resolution passed by our shareholders at the EGM held on January 11, 2022 and had obtained fresh certificate of incorporation dated January 17, 2022 issued by the Registrar of Companies, New Delhi. For details pertaining to the change of name of our company and change in the address of the registered office, please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 114 of this Prospectus.
Registered Office: 607 Chiranjiv Towers, 43, Nehru Place, New Delhi - 110019, India; Tel. No. +91 9315603745; +91 120 4211766/ 4320794; Corporate Office where books of account and papers are maintained: 1616, WTT Building, 16th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh -201301; Tel: +91 9315603745; +91 120 4211766/ 4320794; Website: www.ishanglobal.com; E-mail: cs@ishangroup.co.in; Contact Person: Ms. Khushboo Soumik Shah, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTER: MR. SHANTANU SRIVASTAVA
THE ISSUE
INITIAL PUBLIC ISSUE OF 22,80,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ISHAN INTERNATIONAL LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER COMPANY") FOR CASH AT A PRICE RS. 80/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 70/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 1824.00 LAKHS ("THE ISSUE"), OUT OF WHICH 1,20,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH FOR A CASH PRICE OF RS. 80/- PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO RS. 96.00 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"), THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 21,60,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. 80/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 1728.00 LAKHS (IS HEREAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.63 %AND 29.97 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 206 OF THIS PROSPECTUS.

ISSUE OPENS ON: SEPTEMBER 09, 2022; FRIDAY
CLOSES ON: SEPTEMBER 14, 2022, WEDNESDAY
FIXED PRICE ISSUE AT RS. 80 PER EQUITY SHARE IS 8.0 TIMES OF THE FACE VALUE.
MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1,600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,600 EQUITY SHARES THEREAFTER

ASBA Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!
 *Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avoid the same. For details, check section on ASBA below.
Mandatory in Public Issues from January 01, 2016
No cheque will be accepted.

UPI UPI now available in ASBA for retail individual investors applying through Registered Brokers, DPs, & RTAs.
 Applicants to ensure PAN is updated in Bank Account being blocked by ASBA Bank.
 List of Banks supporting UPI is also available on SEBI at www.sebi.gov.in

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page no. 214 of the Prospectus. The process is also available on the website of SEBI and Stock Exchange in the General Information Document. ASBA forms can be downloaded from the website of NSE and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.
 The Application Forms which do not have the details of the Applicant's depository account including DP ID, PAN, UPI ID (in case of RIBs using the UPI mechanism) and Beneficiary Account Number shall be treated as incomplete and rejected. In case DP ID, Client ID and PAN mentioned in the Application Form and entered into the electronic system of the stock exchange, do not match with the DP ID, Client ID and PAN available in the depository database, the application is liable to be rejected. Applicants will not have the option of getting allotment of the Equity Shares in physical form. The Equity Shares on allotment shall be traded only in the dematerialised segment of the Stock Exchange.

PROPOSED LISTING: The Equity Shares of the Company are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE Limited in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an In-principle approval letter dated August 30, 2022 from NSE for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the Emerge platform of NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE.
DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Prospectus was furnished to SEBI in soft copy. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 195 of the Prospectus.
DISCLAIMER CLAUSE OF THE EMERGE PLATFORM OF NSE LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE Limited should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by NSE, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to page no. 198 of the Prospectus for the full text of the Disclaimer Clause pertaining to NSE.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER

ALCHEMIST CORPORATION LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC05768

Regd. Office: R-4, Unit 103, First Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017

info@alchemist-corp.com / 011-29544474

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice be and is hereby given that the 29th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) on Friday, September 30, 2022 at 03.30 P.M. IST, in Pursuant to General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 17/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 and SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 12, 2020, January 15, 2021 and May 13, 2022, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars'), without the physical presence of the members. The members attending the AGM through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the relevant circulars, the Notice of AGM and the Annual Report 2021-22 have been sent only by email to all the members of the Company. The aforesaid documents will also be available on the Company's website at www.alchemist-corp.com and on the website of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited (www.bseindia.com).

E-voting:
In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing the facility of remote e-voting to be transacted at the AGM and for this purpose the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL).

The remote e-voting facility shall commence on **Tuesday the 27th September 2022 from 9.00 a.m. (IST) and end on Thursday the 29th September 2022 at 5.00 p.m. (IST)**. Those members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to cast their e-vote during AGM.

A person whose name is registered in the Register of Members as on the Cut-off Date i.e. Friday 23rd September, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting (e-voting) at the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and hold shares as on the Cut-off Date, may obtain the login-id and password for remote voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

The detailed instructions for remote e-voting are provided in the Notice of AGM.

Book Closure:

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that the **Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, the September 30, 2022 (both days inclusive)** for the purpose of AGM.

To ensure timely receipt of Notice of AGM and Annual Report 2021-22, the members are requested to register/update their email address / contact number in the following manner:

In case of physical holding: Member may send an e-mail request to the Company at info@alchemist-corp.com along with:
• scanned copy of the signed request letter mentioning Name, Folio Number, Share certificate number, complete address, email address and mobile number, and
• scanned copy of self-attested PAN card.

Further, shareholder may also visit the website www.skylinert.com and update their email ID/ contact number thereof.

In case of Demat Holding: Members holding shares in dematerialized form are requested to register / update their email addresses with their relevant Depository Participant.

The details will also be available on the website of the Company at www.alchemist-corp.com and on the website of RTA at www.skylinert.com. The login credentials for casting vote through e-voting shall be made available to the members through email.

In case of any query/grievance pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's section of www.skylinert.com or contact our RTA, M/s Skyline Financial Services Private Limited D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi-110020, Contact No. 011-40450193-97, 011-26812682-83.

This information is being issued for the information and benefit of the members of the Company, in compliance with the relevant Circulars as referred hereinabove.

By order of the Board
For Alchemist Corporation Limited
Sd/-
Pooja Rastogi
(Managing Director)

Place: New Delhi
Dated: 06.09.2022

डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

CIN : L65921DL1991PLC043087

पंजीकृत कार्यालय - डी 7/3, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फ्लोर - 2, नई दिल्ली - 110020

ईमेल आईडी - info@dfsionline.in

वेबसाइट - www.dfsionline.in

31 वीं वार्षिक आम बैठक के लिए बुक क्लोजर की सूचना

अधिनियम की धारा 91 और लिस्टिंग नियमों के विनियमन 42 के अनुसार नोटिस जारी है कि सदस्यों को रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक एजीएम के उद्देश्य से शनिवार, 24 सितंबर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रखें।

वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 वीं वार्षिक आम बैठक की उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.dfsionline.in और स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल डिपॉजिट लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की वेबसाइट पर क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त जानकारी एक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए हस्ता/परमजीत सिंह

दिनांक: 06.09.2022
स्थान: नई दिल्ली

SUMMONS FOR SETTLEMENT OF ISSUES (O.S. 1, 8) in the court of Sh. Aviral Shukla Civil Judge-01, South East Delhi Court No. 608, Saket Courts Complex, New Delhi-17 C.M.Y.K. Creation Pvt. Ltd. versus VI Constructure Pvt. Ltd.

VI Constructure Pvt. Ltd. Office at: II Floor, C-26, Chirag Enclave Greater Kailash I, New Delhi-110048 Whereas C.M.Y.K. CREATION PVT. LTD. has instituted a suit against you for you are hereby summoned to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed, and able to answer all material questions relating to the suit, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the 12-09-2022 at 10:00 o'clock in the forenoon, to answer the claim and further you are hereby directed to file on that day a written statement of your defence and to produce on the said day all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for set-off or counter-claim, and where you rely on any other document whether in your possession or power or not, as evidence in support of your defence or claim for set-off or counter-claim, you shall enter such documents in a list to be annexed to the written statement. Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit will be determined in your absence. GIVEN under my hand and Seal of the Court, this 31-08-2022.

Sd/ Saket Courts Complex, New Delhi-17

हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड

सीआईएन : L80221DL2010PLC207436

पंजीकृत कार्यालय: ए-95/3, दूसरी मंजिल, यजीसुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली - 110 052

ई-मेल आईडी: hummingbirdeducation@gmail.com

वेबसाइट: www.hummingbirdeducation.co

12 वीं आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

कोरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 सितंबर 2021, 14 दिसंबर 2021 और 05 मई 2022 (सामूहिक रूप से "एसीएम परिपत्र") के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और सेवा द्वारा दिनांक 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 और 13 मई 2022 ("सेबी परिपत्र") दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 की एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कंपनी के सदस्यों की 12 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा भारतीय प्रतिकृति विनियम बोर्ड (सेबी) (पूर्वोक्त) दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमों 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विजुअल सभ्यता (ओएवीएम) के माध्यम से गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को दोपहर 1.30 बजे आयोजित की जायेगी।

नित्य 2021-2022 के लिए 12 वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट का नोटिस उन सदस्यों को पहले ही भेजा जा चुका है, जिनका ई-मेल पता कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, किंग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल रिपोर्ट के पास पंजीकृत है। उपरोक्त एसीएम परिपत्रों और सेवा परिपत्रों के अनुसार एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट के नोटिस की वास्तविक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। व्यवसायिक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट के साथ 12 वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.hummingbirdeducation.com पर अलखोड की गई है और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evotingindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

बुक क्लोजर कंपनी के सदस्यों और शेयर ट्रांसफर बुक का रजिस्टर एजीएम के चयन से 23 सितंबर, 2022 से 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा और उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करने के लिए जो एजीएम में अनुमोदित होने पर अंतिम नामांक प्राप्त करने के हकदार होंगे।

ई-वोटिंग: कंपनी अपने सदस्यों को गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 (कट-ऑफ तिथि) तक मौखिक या क्लेमट रूप में डिक्रिटीड शेयर रखने के लिए एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से वोटों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

क) रिमोट ई-वोटिंग: रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 26 सितंबर, 2022 को सुबह 09.00 बजे शुरू होगी और 28 सितंबर, 2022 को सां 5.00 बजे समाप्त होगी और इसके बाद इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

ख) एजीएम में ई-वोटिंग: ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और वीसी / ओवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे हैं।

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि यानी 22 सितंबर, 2022 को डिजिटरी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर या सामग्री मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे क्लेमट रूप से ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने और एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के हकदार होंगे।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और एजीएम में उपस्थित हुए हैं, वे नोटिस में भी उल्लेख का पालन करते हुए एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना देने के बाद कंपनी का सदस्य बन गया और कट-ऑफ तिथि को शेयर रखता है, किंग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटरी को अनुरोध मेजकर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतभेदों का प्रयोग कर सकता है और एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके एजीएम में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में संबंधित डिजिटरी प्रतिभागी के साथ इसे पंजीकृत करें और ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, रस-सत्यापित पैन को भी प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां को param.hbel@gmail.com और investor.del@bigshareonline.com पर एक अनुरोध मेजकर और इलेक्ट्रॉनिक रूप से 12 वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 प्राप्त करने के लिए, यदि शेयर मौखिक रूप में रखे जाते हैं।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में संबंधित डिजिटरी प्रतिभागी के साथ इसे पंजीकृत करें और ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, रस-सत्यापित पैन को भी प्रदान करने वाले अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्कैन की गई प्रतियां को param.hbel@gmail.com और investor.del@bigshareonline.com पर एक अनुरोध भेजें और इलेक्ट्रॉनिक रूप से 12 वीं एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 प्राप्त करने के लिए, यदि शेयर मौखिक रूप में रखे जाते हैं।

ई-वोटिंग या वीसी / ओवीएम मागीदारी के लिए तकनीकी रूप से सहायता:

ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी सहायता को नेशनल सिक्योरिटीज डिजिटरी लिमिटेड को संबोधित किया जा सकता है या evoting@nsdl.co.in को एक ईमेल भेजा जा सकता है। कृपया किसी भी सहायता के लिए कंपनी को लिखें।

हस्ता/परमजीत सिंह

तिथि: 06.09.2022
स्थान: नई दिल्ली

हमिंग बर्ड एजुकेशन लिमिटेड के लिए
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN - L17111UP1988PLC009594

पंजीकृत कार्यालय: पवनपुरी, मुरादनगर, गाजियाबाद-201206 (यूपी.)

ई-मेल: syblby@rediffmail.com, info@syblby.com, वेबसाइट: www.syblby.com

सफर क्रम- 01232 - 261521

वार्षिक साधारण सभा की सूचना:

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की 34 वीं वार्षिक साधारण सभा शुक्रवार, दिनांक 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे पंजीकृत कार्यालय पवनपुरी, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद-201206 (यूपी.) पर वार्षिक एजीएम के नोटिस दिनांक 30 अगस्त 2022 में गणित सामान्य व विशेष कार्य को सम्पन्न करने के लिए होगी। एजीएम की बैठक की सूचना व्यवसायिक विवरण सितंबर 2021 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट संक्षिप्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा उन सभी सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है, जिन्होंने ईमेल एड्रेस कम्पनी/डिजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत हैं। अन्य सभी सदस्यों को जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किये हैं, उन्हें एजीएम नोटिस की प्रतियां मौखिक रूप से वीसीएम माध्यम द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर भेजी जा चुकी है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट (www.syblby.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग:
रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ व्यवस्था की है।

इस संदर्भ में सदस्य कृपया ध्यान दें:

(i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108, तिथि कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पठित एवं सेवा (एलओडीआर) सेगुलेशन 2015 के नियम 44 के अनुसार पालन में वार्षिक साधारण सभा के नोटिस में वर्णित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग से संपन्न कर दिया जा सकता है। कंपनी को अपने सभी शेयर धारकों को ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रस्तुत है।

(ii) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग एवं एजीएम स्थल पर वोटिंग हेतु शेयर होल्डरों के निर्धारण हेतु कट-ऑफ तिथि शुक्रवार, 23 सितंबर 2022 है। जिन सदस्यों के पास कट-ऑफ तिथि को कागजी अथवा डिजिटरी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शेयर हैं, वे सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जो <https://www.evotingindia.com> है, पर एजीएम स्थल के अलावा अन्य स्थान से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा मतपत्र द्वारा एजीएम स्थल पर अपना वोट दे सकते हैं।

(iii) रिमोट ई-वोटिंग 27 सितंबर 2022 (मंगलवार) को 10:00 बजे प्रातः प्रारम्भ होगी और 29 सितंबर 2022 (शुक्रवार) को 5:00 बजे सायं पर समाप्त हो जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सीडीएसएल द्वारा 29 सितंबर 2022 (शुक्रवार) को 5:00 बजे सायं पर बंद कर दी जाएगी और उपरोक्त तिथि व समय के उपरोक्त वोटिंग की छूट नहीं होगी। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार अपनी वोट डाल देने के बाद सदस्य को उसमें बदलाव का अधिकार नहीं होगा।

(iv) कोई व्यक्ति जो एजीएम की सूचना प्रेषित कर दिए जाने के पश्चात शेयर प्राप्त करके कंपनी का शेयरधारक बनाता है, एवं कट-ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2022 (शुक्रवार) को शेयरधारक हो, वे ई-वोटिंग के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) से या सीडीएसएल से निम्न संकेत से हासिल कर सकते हैं: दूरभाष संख्या: 022-23058738 व 022-23058542-43, ई-मेल आई डी: helpdesk.evoting@cdslindia.com, beetal@beetalfinancial.com

(v) मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

(vi) कोई भी सदस्य अपने मतभेदों का रिमोट ई-वोटिंग द्वारा हस्तमाल करने के उपरांत भी एजीएम में शामिल हो सकता है। लेकिन उसे एजीएम में अपना वोट पुनः डालने की छूट नहीं होगी।

(vii) क्लेमट वही सदस्य एजीएम स्थल पर मतपत्र द्वारा अथवा रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की सुविधा का लाभ लेने के अधिकारी होंगे जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिजिटरी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतभेदों का प्रयोग कर सकते हैं और रिमोट ई-वोटिंग द्वारा रखे जाने वाले बेनिफिशियर आनर्स के वार्षिक रिपोर्ट में दर्ज होंगे।

कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के नोटिस को http://www.syblby.com/wp-content/uploads/2022/09/Notice_34TH-AGM_SYBLBY.pdf से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

किसी भी जानकारी के लिए सदस्य एफएक्यू (FAQ) और सदस्यों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल को देख सकते हैं। जो www.evotingindia.com के डाउनलोड सेशन पर उपलब्ध हैं। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य टोलफ्री नं. 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं अथवा श्री आनन्द शिरोडकर, श्री अजित बांदीवाडेकर, सीडीएसएल, ट्रेड ब्लॉक, फिरोज जीजीआई टॉवर, 17वां तल दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 से अधिकृत ई-मेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com या दूरभाष संख्या: (022) 23058615, (022) 23058634 फैक्स: (022) 23002043 पर संपर्क कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार एजीएम में वोटिंग प्रणाली के रूप में, कंपनी सदस्यों को नोटिस/दस्तावेजों/वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक रूप में सर्विसिंग को सक्षम करने के लिए अपना ई-मेल पता उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मौखिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए अनुरोध कंपनी या आरटीए को भेजा जाना चाहिए और डिजिटरी/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में डिजिटरी पार्टिसिपेंट को भेजा जाना चाहिए।

वार्षिक साधारण सभा उपरोक्त सभा स्थल पर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा जारी एसीओपी/एडआर/एन/नीमरतम दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग नियमों व अन्य सूचना प्रौद्योगिकी मसलन फेस मास्क, 'हैंड सैनेटाइजेशन आदि का कड़ाई से पालन करते हुए होगी।

वास्को-सिबली इंडस्ट्रीज लिमिटेड
हस्ता/परमजीत सिंह
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सं.सं: ९57936

This is only an Advertisement for the information purpose and not for an offer document/Announcement. Not for publication, distribution, or release, directly or indirectly in the United States of America or otherwise outside India. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated Tuesday, July 12, 2022 ("Letter of Offer") filed with BSE Limited, the stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed (BSE), and Securities Exchange Board of India (SEBI)



MAHARASHTRA CORPORATION LIMITED

Our Company was originally incorporated on November 24, 1982, as 'Maharashtra Industrial Leasing and Investments Limited' under the provisions of the Companies Act, 1956, with the Registrar of the Companies, Mumbai, Maharashtra. The Company changed its name to 'Maharashtra Overseas Limited' and the certificate of incorporation consequent upon change of name was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra, Mumbai on May 31, 2006. Subsequently, the name of our Company was further changed to 'Maharashtra Corporation Limited' and a fresh Certificate of Incorporation pursuant to change of name was issued by the Registrar of Companies, Mumbai on March 23, 2011. For further details, please refer to the section titled 'General Information' on page 37 of the Letter of Offer

Corporate Identity Number: L71100MH1982PLC028750
Registered Office: 907/908, Dev Plaza, S.V. Road, Andheri (West), Mumbai 400058, Maharashtra, India;
Phone Number: 022-67424815

Contact Person: Ms. Hardika Rakesh Kumar Solanki, Company Secretary and Compliance Officer;
Email-ID: mcl@visagar.com; Website: www.mahacorp.in

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE PROMOTERS OF THE COMPANY ARE SHALIMAR PRODUCTIONS LIMITED, VISAGAR FINANCIAL SERVICES LIMITED, SAGAR PORTFOLIO SERVICES LIMITED, TILOKCHAND MANAKAL KOTHARI, AND ASHA KOTHARI

RIGHTS ISSUE OF 49,62,22,210 (FORTY-NINE CRORES SIXTY-TWO LAKHS TWENTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND TEN) PARTLY-PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) EACH AT AN ISSUE PRICE OF RE. 1.00/- (RUPEE ONE ONLY) PER RIGHT SHARE FOR AN AMOUNT AGGREGATING TO RS.49,62,22,210.00/- (RUPEES FORTY-NINE CRORES SIXTY-TWO LAKHS TWENTY-TWO THOUSAND TWO HUNDRED AND TEN ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF MAHARASHTRA CORPORATION LIMITED IN THE RATIO OF 11 (ELEVEN) RIGHTS SHARES FOR EVERY 3 (THREE) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, FRIDAY, JULY 08, 2022 (ISSUE). THE ISSUE PRICE IS AS PAR WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED 'TERMS OF THE ISSUE' BEGINNING ON PAGE 112 OF THE LETTER OF OFFER.

* Assuming full subscription and receipt of all Call Monies with respect to Right Shares.

PAYMENT METHOD FOR THE ISSUE			
AMOUNT PAYABLE PER RIGHT SHARE	FACE VALUE	PREMIUM	TOTAL
On Application	Re. 0.25/-	Nil	Re. 0.25/-
One or more subsequent Call(s) as determined by our Board at its sole discretion, from time to time	Re. 0.75/-	Nil	Re. 0.75/-
Total	Re. 1.00/-	Nil	Re. 1.00/-

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Maharashtra Corporation Limited, wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue of Rights Shares, which opened for subscription on Tuesday, July 19, 2022, and closed on Tuesday, August 17, 2022, with the last date for the market renunciation of the Rights Entitlement being Wednesday, July 27, 2022. Kindly note that, as per the Offer Documents the Issue was initially to be closed on Tuesday, August 02, 2022, however, the Board of Directors of the Company on Monday, August 01, 2022, decided to extend the issue until Wednesday, August 17, 2022.

The details of Applications received, is scheduled as under:

Particulars	ASBA Applications				Rejections/ Refunds				Total Particulars of Rejection (B)	Net Valid Applications (C)
	Total Applications received	Application Banked but not in bid data file	(Duplicate entries / Not banked)	(Shares Difference)	Valid ASBA applications (A)	Applicants not in master as of record date/ not in RE as on closing date	Applicant not holding REs on closing date	Invalid Depository Provided By Investor		
Number of Applications received	2,810	--	(34)	--	2,776	1,002	16	277	16	1,311